



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 1

12 पौष 1940 (श0)  
पटना, बुधवार, —  
2 जनवरी 2019 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और  
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

2-7

भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0,  
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,  
एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,  
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-  
इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं  
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान,  
आदि।

---

भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि

---

भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले  
गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और  
नियम आदि।

---

भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और  
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और  
नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के  
उद्धरण।

---

भाग-4-बिहार अधिनियम

---

भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित  
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या  
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के  
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में  
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

---

भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ  
अनुमति मिल चुकी है।

---

भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,  
संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के  
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर  
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में  
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

---

भाग-9-विज्ञापन

---

भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

---

भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं,  
न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं  
इत्यादि।

8-8

पूरक

---

पूरक-क

9-9

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

### पथ निर्माण विभाग

#### अधिसूचनाएं

24 दिसम्बर 2018

**सं० 1/विविध-41/2018-9815(S)**—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-9706 दिनांक 20.07.2018 की कंडिका-5 (i से vi) में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-5 (iii) के आलोक में सभी प्रोन्नतियाँ मूल कोटि की वरीयता के स्थान पर फीडर कैडर के वरीयता के आधार पर दिया जाना है, फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-7235 (एस०) दिनांक 18.09.2018 के द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता (असैनिक) की फीडर कैडर की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया था, तथा 15 दिनों के अन्दर दावा/आपत्ति की मांग की गयी थी। विभागीय आदेश संख्या-9688 (एस०) दिनांक 20.12.2018 द्वारा दावा/आपत्ति का निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया। विभागीय आदेश संख्या-9688 (एस०) दिनांक 20.12.2018 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.12.2018 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के मुख्य अभियंता (असैनिक) की औपबंधिक वरीयता सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार कर अनुशंसा किया गया।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के मुख्य अभियंता (असैनिक) का अन्तिम वरीयता (संलग्न सूची के अनुसार) सूची निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव।

बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के मुख्य अभियंता (असैनिक) की अन्तिम वरीयता सूची

क्र० सं०	वर्ष 2010 स०अ० सिविल लिस्ट का क्रमांक	नाम (कोटि) / गृह जिला	कोटि (आरक्षित/ गैर आरक्षित)	प्रथम नियोजन (नियुक्ति) का कोटि	जन्म तिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि	शैक्षणिक योग्यता	सौथी नियुक्ति का वर्ष/मेघा क्रमांक/ प्रतिशत प्राप्तांक	सहायक अभियंता में प्रोन्नति का वर्ष/कनीय अभियंता के रूप में वरीयता क्रमांक	सेवा में योगदान की तिथि/सेवा संपुष्टि की तिथि	वर्तमान ग्रेड /प्रोन्नति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### मुख्य अभियंता

1	194	श्री सुधीर कुमार दास (अ०जा०)/ मुंगेर।	आरक्षित	आरक्षित	15-01-1959 31-01-2019	B.Tech. Civil	1985/48.66	लागू नहीं	39500	17-07-14	
2	188	श्री भवानी नन्दन (अ०जा०)/ पटना	आरक्षित	आरक्षित	13-02-1960 29-02-2020	B.Sc. Engg. (Civil)	1985/47.67	लागू नहीं	08-01-2003	17-07-14	
3	263	श्री वशिष्ठ नारायण(अ०जा०)/ बक्सर	आरक्षित	आरक्षित	28-12-1963 31-12-2023	M.Tech. Civil	1987/209	लागू नहीं	01-07-1987 03-07-2004	17-07-14	
4	430	श्री राजकुमार लाल (अ०जा०)/ बेगूसराय।	आरक्षित	आरक्षित	25-12-1962 31-12-2022	B.Tech. Civil	1987/1990	लागू नहीं	16-06-1987 06.08.2005	17-07-14	
5	129	श्री चन्द्रशेखर/ नवादा।	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित	01-01-1959 31-12-2018	B.Tech. Civil	1981/51.07	लागू नहीं	14-07-1981 08-01-2003	18-07-17	
6	222	श्री उमेश कुमार/ नालंदा।	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित	05-12-1960 31-12-2020	A.M.I.E.	लागू नहीं	1987/	03-07-2004	23-05-18	
7	227	श्री मनोज कुमार/ पटना।	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित	25-10-1960 31-10-2020	B.Tech. Civil	1987/3	लागू नहीं	18-06-1987 03-07-2004	23-05-18	
8	231	श्री सुब्रत सरकार/पटना।	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित	01-01-1961 31-12-2020	B.Tech. Civil	1987/37	लागू नहीं	26-06-1987 08-01-2003	23-05-18	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव।

**24 दिसम्बर 2018**

अधिसूचना संख्या-प्र0-11/पथ अधि0-02-02/2017-8903(E)---सरकार के आदेशानुसार अन्य विभाग एवं नगर परिषद् के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथ/ पथांश को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण/ निर्माण एवं संधारण हेतु निर्णय लिया जाता है :-

क्र० स०	जिला का नाम	पथ प्रमण्डल का नाम	पथ का नाम/ मार्ग रेखन	लम्बाई (कि०मी० में)	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग
1.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	नारायणपुर (एस०एच०-87) पिपराढ़ी- सुपिलगाढ़ा- निमाही- पचड़ा- मधुरापुर- संधवाराबाँध- उदासी बाबा पुल (अधवारा नदी पर) मधुबन बाजार चौक- पकड़ी- बसहा- नरहपुर- भवानीपुर- बथनाहा- (एन०एच०-104) योगवाना- (एन०एच०-77) से मेजरगंज तक पथ।	27.00	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11203, दिनांक 02.11.18
2.			शंकर चौक (एन०एच०-77) से बरियारपुर चौक (एन०एच०-104) भाया अमघट्टा रोड हुसैना मोड़ तक।	5.00	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11743, दिनांक 24.11.18
3.	मधुबनी	मधुबनी	बरैल चौक आर०सी०डी० पथ से बड़हारा होते हुए अंधराठाढ़ी आर०सी०डी० पथ।	13.52	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11631, दिनांक 22.11.18
4.	गया	शेरघाटी	गया जिलान्तर्गत गया शेरघाटी भाया चेरकी एम०डी०आर० पथ में सगाही नहर से एन०एच०-2 अमन चैन होते हुए एन०एच०-99 बाल्टि फैक्ट्री तक।	8.9	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-9977, दिनांक 19.09.18
5.			गया जिला के गुरुआ बैजुधाम पुल के पश्चिम छोर से मोरहर नदी, गौसपुर, चिलौर, अकौथरा, तांती होते हुए मंझार साईड तक	4.00	
6.	समस्तीपुर	समस्तीपुर	इंद्र वारा कारिख बाबा मंदिर से (भाया राजकीय मेला क्षेत्र केवल बाबा स्थान एवं दरबा होते हुए) मरीचा चौक।	13.10	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11044, दिनांक 31.10.18 एवं सं० 2053 दि. 05.12.18
7.	जहानाबाद	जहानाबाद	डहरपुर से सातनपुर भाया अहियासा पथ।	5.00	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11629, दिनांक 22.11.18
8.	जमुई	जमुई	इस्लामनगर से भलुआना पथ	13.120	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11128, दिनांक 01.11.18
9.			केनुहाट- रतनपुर पथ से लडुम्बा भाया गुगुलडीह।	10.241	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-12026, दिनांक 04.12.18
10.	दरभंगा	बेनीपुर	रोसड़ा, मब्बीढ़ाला, राजघाट से सतीघाट पथ।	8.4	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-11667, दिनांक 23.11.18
11.			रंगीला चौक गोदाम पोखर- लोमा- ढेलफोड़वा पथ।	8.00	ग्रा०का०वि० की अधिसूचना संख्या-12030, दिनांक 04.12.18

12.	वैशाली	हाजीपुर	हरौली- सराय पथ।	9.00	ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-12028, दिनांक 04.12.18
13.			दिग्धी कला यादव द्वार अदलपुर पथ।	2.50	
14.			जी०एम० ऑफिस के सामने पश्चिम अदलबड़ी जाने वाली पथ।	0.5	
15.			सेन्दुआरी- वासुदेवपुर- चपुता- धोबघट्टी (एन०एच०-77) पथ।	3.5	
16.			चन्द्रालय- बलवा- कोआरी पथ।	3.5	
17.			देवराज पथ।	2.5	
18.			सर्किट हाउस हाजीपुर से अम्बेदकर बालिका छात्रावास तक पथ	3.00	
19.			लालगंज- मानपुर जतकौली पथ।	14.15	
20.			जौहरी बाजार से डी०एम० आवास तक पथ।	0.40	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् हाजीपुर का पत्रांक-2646, दिनांक 27.11.18
21.	सहरसा	सहरसा	हवाई अड्डा चौक से टुडे शोरूम सराही होते हुए नया बाजार होते हुए बायपास रोड तक।	2.118	नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-588, दिनांक 29.01.18
22.	पटना	पटना पश्चिम	नवही-सरासत-नौबतपुर पथ	7.90	ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-12331, दिनांक 12.12.18
23.	भाजपुर	शहाबाद	करथ-सकला-नासरीगंज पथ का पथांश करथ काव पुल से करथ नहर पुल तक।	0.80	ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-12329, दिनांक 12.12.18

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का दायित्व रहित प्रभार संबंधित विभाग/नगर परिषद् से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगे। अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।

3. संबंधित पथ के विरुद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

4. अधिग्रहण/निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

#### 24 दिसम्बर 2018

सं० प्र०-11/पथ अधि०-02-02/2017-8891(E)—सरकार के आदेशानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निगम/नगर पंचायत के स्वामित्व वाले निम्न पथ पर पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ निर्माण एवं इसके संधारण कार्य हेतु निर्णय लिया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पथ प्रमण्डल का नाम	पथ का नाम/ मार्ग रेखन	लम्बाई (कि०मी० में)	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग
1	सारण	छपरा	सारण जिला अन्तर्गत समाहरणालय के सामने नगर थाना चौक से जोगिनिया कोठी होते हुए छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन ओभर ब्रिज तक पथ।	1.2	नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा के पत्रांक-1571, दिनांक 27.11.18

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता उपर्युक्त पथ को विभागीय पंजी में संधारित करते हुए नगर निगम एवं नगर परिषद् एक्ट के अनुरूप पथ निर्माण कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
3. संबंधित पथ के विरुद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।
4. अधिग्रहण/निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-**  
**अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।**

### पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

#### अधिसूचनाएं

28 सितम्बर 2018

**सं0 1/ स्था0 (2) 204/2018-3107**—एम0 जे0 सी0 संख्या-1519/2014 प्रमोद कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पारित न्यायादेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-5/प्रो0-37-03/2018 (02) लो0 से0 आ0 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा प्राप्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.10.2017) प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 21.12.2011 के प्रभाव से (भूतलक्षी प्रभाव से) जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800/- +ग्रेड वेतन रू0 4800/- में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0 जे0 सी0 संख्या-1519/2014 में पारित आदेश के आलोक में दिया गया है। अतएव इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जायेगा। इस आधार पर किसी अन्य के द्वारा किये गये दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
 ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

27 दिसम्बर 2018

**सं0 5 नि०गो०वि० (8) 03/2015-290/नि०गो०**—श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी मामला निगरानी थाना कांड संख्या-037/2015 दिनांक-11.05.2015, धारा-13 (2), सह पठित धारा-13 (1) (ई), भ्र०नि०अधि०, 1988 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें श्री मधुप को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (ग) के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या 08 दिनांक 14.01.2016 द्वारा निलंबित किया गया तथा श्री मधुप के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कि गयी।

श्री मधुप द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 17016/2017 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 30.04.2018 को पारित न्याय निणय के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

1. अतः दिनांक 30.04.2018 को पारित माननीय न्यायालय के आदेश के दृष्टिपथ में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में श्री मधुप, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
 (ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

## वित्त विभाग

## अधिसूचना

27 दिसम्बर 2018

सं० 1/स्था०-पदा०-02/2016/9552/वि०—श्री दिलीप कुमार (आई०टी०एस०-93), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को केन्द्रीय असैनिक सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम-26 के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2018 से 28.12.2018 तक कुल 08 (आठ) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 29.12.2018 (शनिवार) एवं दिनांक 30.12.2018 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
जयन्त कुमार सिंह, विशेष सचिव।

## सहकारिता विभाग

## अधिसूचनाएं

7 दिसम्बर 2018

सं० 1/सह.रा.स्था.बि.स.से.(अंके.)स्थाना.—16/2012/3989—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिहार राज्य को—ऑपरेटिव बैंक, पटना (अति.प्रभार—संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शिवहर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया एवं उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, भूमि विकास बैंक, पटना का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
ऋचा कमल, उप-सचिव।

29 नवम्बर 2018

सं० 01/रा.स्था.विविध-32/2018 सह-3859—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान लेवल-12 कोटि के पदाधिकारी श्री ललन शर्मा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (गव्य), बिहार, पटना को तदेन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-7457 दिनांक-11.09.2002 में निहित प्रावधान के आलोक में अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान लेवल-13 के पद पर सशर्त तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रोन्नति औपबधिक होगी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
ऋचा कमल, उप-सचिव।

7 दिसम्बर 2018

सं० 08/नि.को.(रा.)निग.—109/2018-3992—श्री विरेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी.—सह—जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक-04.06.2018 को परिवादी श्री सुजीत कुमार से रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा भेजे जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-025/2018 दिनांक-06.06.2018 की धारा-7/13(2) सह-पठित-धारा-13(1)(5) भ्र.नि.अधि., 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2244 दिनांक-10.07.2018 द्वारा दिनांक 04.06.2018 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 29.10.2018 के पूर्वाह्न में श्री कुमार के द्वारा अपना योगदान निर्धारित मुख्यालय में समर्पित किया गया। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है। योगदान की तिथि से श्री कुमार निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

### 7 दिसम्बर 2018

सं० 08/नि.को.(रा.)निग.-109/2018-3993—श्री विरेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी.-सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक-04.06.2018 को परिवादी श्री सुजीत कुमार से रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा भेजे जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-025/2018 दिनांक-06.06.2018 की धारा-7/13(2) सह-पठित-धारा-13(1)(5) भ्र.नि.अधि., 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2244 दिनांक 10.07.2018 द्वारा दिनांक-04.06.2018 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक-29.10.2018 के पूर्वाह्न में श्री कुमार के द्वारा अपना योगदान निर्धारित मुख्यालय में समर्पित किया गया। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3992 दिनांक-07.12.2018 द्वारा स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया।

परन्तु चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध ट्रेप केस के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या-025/2018 दिनांक-06.06.2018, धारा-7/13(2) सह-पठित-धारा-13(1)(5) भ्र.नि.अधि., 1988 दर्ज है तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है। अतः इनका निलंबन कार्यहित में आवश्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) तथा 9(1)(ग) के अन्तर्गत उन्हें योगदान की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

### परिवहन विभाग

#### अधिसूचना

28 दिसम्बर 2018

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)-8339—श्री प्रभात कुमार झा, (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-966/2011) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री झा को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनय कुमार राय, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 41-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9-ख

### निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

#### सूचना

सं० 1811—मैं, स्वाति सिंह (SWATI SINGH), पिता—स्व० डा० सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, पति: श्री अमित कुमार, वर्तमान निवासी: A-69 पी० सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पोस्ट—लोहियानगर, थाना: कंकड़बाग, पटना, बिहार शपथ पत्र सं० 9514/30.5.18 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे शैक्षणिक रेकार्ड में मेरा नाम पी० एस० स्वाति है। अब से मैं स्वाति सिंह के नाम से जानी जाऊंगी।

स्वाति सिंह।

No. 1811---I, SWATI Singh D/o Late Dr. Sidheshwar Prasad Singh W/o Sri Amit Kumar presently residing at A-69, P.C. Colony, AT+PS-Kankarbagh, P.O.-Lohianagar, Patna, Bihar solemnly affirm and state that my name in educational record is P.S. Swati. Now I shall be known as Swati Singh. Affidavit no. 9514/30.5.2018.

Swati Singh.

सं० 1813—मैं, विपिन कुमार, पिता—श्री शिव कुमार सिंह, निवासी स्टेशन रोड, खुसरूपुर पटना। शपथ पत्र संख्या 17863 दिनांक 10.08.2018 के अनुसार विपिन कुमार एवं विपिन कुमार सिंह दोनों एक ही व्यक्ति हैं जो दोनों नामों से जाने एवं पहचाने जाते हैं।

विपिन कुमार।

सं० 1826—मैं, कुमारी सुरभि सिंह, पिता—संजय कुमार, ग्राम+पोस्ट—पचौरा, थाना—हरनौत, जिला—नालंदा, शपथ पत्र संख्या—21767 तारीख 24.09.18 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि अब मैं सुरभि सिंह के नाम से जानी जाऊँगी।

कुमारी सुरभि सिंह।

No. 1826---I, Kumari Surabhi Singh, D/o Sanjay Kumar, R/o Vill+ PO- Pachoura, P.S.-Harnaut, Dist-Nalanda now will be known as Surabhi Singh vide Affidavit No. 21767 dated 24.09.2018 for all future purposes.

Kumari Surabhi Singh.

No. 1827---I, Alisha, D/o Sahatam Pandit, R/o Indrapuri, Road no. 10, P.O.-Keshri nagar, P.S.-Patliputra, Distt.-Patna-24 declare vide Affidavit no. 76 dated 15.10.2018 that now onwards I shall be known as Alisha Pandit.

Alisha.

No. 1828---I, **Rakesh Kumar** S/o Bikau Singh, Resident of 27, New, M.O.Q. IGIMS, Sheikhpura, B.V.College, Patna declare that by affidavit no. 14290 dated 06-07-2018. I will be known as Rakesh Kumar Singh for all future purpose.

Rakesh Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 41-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## का

## पूरक (अ०)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० एल/एच०जी०-14-18/2018—11479

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

संकल्प

21 दिसम्बर 2018

श्री मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के द्वारा विज्ञापन सं०-02/2011 के आलोक में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन एवं अन्य कतिपय मामलों में किये गये अनियमितता के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ में गठित कर साक्ष्य सहित जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-02-1401/सा०, दिनांक 28.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17 के अधीन मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर को आरोप के मर्दों की प्रति, अवचार या कदाचार के लाक्षणों का अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की सूची भेजते हुए उनसे लिखित बचाव अभिकथन की मांग विभागीय पत्रांक-9700, दिनांक 25.10.2018 द्वारा की गई। आरोपित द्वारा अपना बचाव अभिकथन उपलब्ध न कराकर अपने कार्यालय के पत्रांक-771, दिनांक 24.11.2018 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु और 15 (पंद्रह) दिनों का समय दिए जाने का अनुरोध किया गया।

3. श्री मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के विरुद्ध आरोप प्रपत्र ‘क’ पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु महासमादेष्टा, मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को निदेश दिए जाने का निर्णय लिया गया।

4. इस बीच श्री मो० शरफुद्दीन के दिनांक 30.11.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र ‘क’ पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के बजाय बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 41-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>